

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +3016

सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

रामायण परिपथ का क्रियान्वयन

+3016. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री रवि किशन:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री चंद्रशेखर साहू:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण परिपथ का क्रियान्वयन कर रही है एवं यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विभिन्न राज्यों में रामायण परिपथ के अंतर्गत विकास हेतु चिह्नित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) रामायण परिपथ के अंतर्गत अभी तक आवंटित जारी और व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विभिन्न राज्यों में रामायण परिपथ के अंतर्गत पूर्ण किए गए विकास कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उनके स्थलों को रामायण परिपथ से जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ङ.): पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ थीम के अंतर्गत विकास हेतु प्रारंभिक रूप से 15 गंतव्य अभिज्ञात किए हैं यथा अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर तथा चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), सीतामढी, बक्सर और दरभंगा (बिहार), चित्रकूट (मध्य प्रदेश), महेंद्रगिरी (ओडीशा), जगदलपुर (छत्तीसगढ़), नासिक तथा नागपुर (महाराष्ट्र), भद्राचलम (तेलंगाना), हंपी (कर्नाटक) और रामेश्वरम (तमिलनाडु)।

मंत्रालय ने रामायण परिपथ के अंतर्गत विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। इन परियोजनाओं को स्वीकृति संगत योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, निधियों की उपलब्धता तथा पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता की शर्त पर दी जाती है।

उपरोक्त के आधार पर मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना की रामायण परिपथ थीम के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी है :

(राशि करोड रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम और वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि
1	उत्तर प्रदेश (2016-17)	चित्रकूट तथा श्रृंगवेरपुर का विकास	69.45	64.09	53.68
2	उत्तर प्रदेश (2017-18)	अयोध्या का विकास	127.21	106.64	76.51

रामायण परिपथ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं विकास के अलग-अलग चरणों में हैं।

\*\*\*\*\*